

केंद्रीय विद्यालय सीतापुर

विषय : शिक्षक दिवस का आयोजन

केंद्रीय विद्यालय सीतापुर में 05 सितम्बर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के कक्षा 11 एवं 12 के छात्रों ने शैक्षणिक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारम्भ विद्यालय प्राचार्य सुनील कुमार जी द्वारा पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने भी डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पूर्व राष्ट्रपति को अपनी पुष्पांजली दी। कार्यक्रम का संयोजन संजीव राय पी.जी.टी. (अग्रेजी) ने किया। विद्यालय के शिक्षक नीलेश कुमार मिश्र ने शिक्षक दिवस पर बच्चों को सम्बोधित करते हुए इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित किया, इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति के बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के उपकुलपति, भारत के उप-राष्ट्रपति एवं भारत के राष्ट्रपति के रूप में दिए गये योगदान पर चर्चा की। इस क्रम में उन्होंने डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की योग्यता का बखान करते हुए बताया कि गैर कांग्रेसी होते हुए भी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने को गौरव उन्हें केवल और केवल अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त हुआ।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों द्वारा नृत्य एवं गाने प्रस्तुत किये गये। छात्रों ने शिक्षकों के लिए अनेक मनोरंजक खेलों का आयोजन किया।

शिक्षक दिवस के अवसर पर कक्षा 12 के छात्रों ने छात्र-शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य किया। छात्र-शिक्षक आशी गुप्ता को प्रथम स्थान, ज्योति सिंह को द्वितीय एवं शुभांशी मिश्रा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। कक्षा 12 के कक्षाध्यपकों नवीन कुमार श्रीवास्तव एवं अन्विता बाजपेई के नेतृत्व व मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यक्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए प्राचार्य श्री सुनील कुमार जी ने अपने सम्बोधन में छात्रों से प्रधानमन्त्री जी के कल के सम्बोधन से प्रेरित होते हुए रोबोट की बजाय मानवीय मूल्यों को विकसित करने का आवाहन किया। अपने सम्बोधन में प्राचार्य महोदय ने छात्रों को एक राष्ट्रभक्त नागरिक के रूप में स्वयं को तैयार करने के लिए प्रेरित किया और आगे कहा कि शिक्षकों के प्रति छात्रों का यही सच्चा सम्मान होगा।

दिनांक : 05.09.2015

(सुनील कुमार)
प्राचार्य